



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 1984/वैशाख 27, 1906
No. 239] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 17, 1984/VAISAKHA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 1984

कां. आं. 386(अ)/18क/आई की आर ए/84—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. कां. आं. 325(अ) तारीख 18 मई, 1978 द्वारा (जिसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग विकास और विनियमन (अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 के अधीन उक्त आदेश में प्रबन्ध बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट व्यक्ति निकाय द्वारा 17 मई, 1980 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. कां. आं. 324(अ) तारीख 17 मई, 1980; कां. आं. 327(अ), तारीख 17 मई, 1982; सं. कां. आं. 812(अ), तारीख 17 नवम्बर, 1982, सं. कां. आं. 360(अ) तारीख 17 मई, 1983 और सं. कां. आं. 818(अ) तारीख 17 नवम्बर, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को 17 मई, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकार्देन में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उक्त प्रबन्ध-बोर्ड के अधीन छह मास की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 17 नवम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[कां. सं. 4(1)/77-पी. यू. एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 17th May, 1984.

S.O. 386 (E)/18A/IDRA/84—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 325 (E), dated the 18th May, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as the Bengal Immunity Company Limited, Calcutta, was taken over by a body of persons referred to in the said Order as the Board of Management under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of two years upto and inclusive of the 17th May, 1980.

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 324(E) dated 17th May, 1980, S.O. 327 (E), dated 17th May, 1982, S.O. 312 (E), dated 17th November, 1982, S.O. 360(E), dated 17th May, 1983 and

S.O. 818 (E), dated 17th November, 1983, the duration of the said Order was extended from time to time for a further period upto and inclusive of 17th May, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Board of Management should continue for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 17th November, 1984.

[F. No. 4 (1)/77-CUS]

क० आ० 387(अ)/18-ब/आई.डी.आर.ए/83.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 354(अ), तारीख 25 मई, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) (उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-बख की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि 25 मई, 1978 से ठीक पहले प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, परिनिर्धारणों, पंजादों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, जिनका बंगाल इस्मूनिटी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी पञ्जाकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, प्रवर्तन 18 मई, 1979 तक निरन्तर रहेगा और उक्त तारीख से पहले उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और बाधित उक्त अवधि के लिए निरन्तर रहेंगे;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 186(अ) तारीख 29 मार्च, 1979, सं० का० आ० 325(अ) तारीख 17 मई, 1980, सं० का० आ० 371 (अ) तारीख 16 मई, 1981; सं० का० आ० 328(अ) तारीख 17 मई, 1982; सं० का० आ० 813(अ) तारीख 17 नवम्बर, 1982; सं० का० आ० 361(अ), तारीख 17 मई, 1983 और सं० का० आ० 819(अ) तारीख 17 नवम्बर, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को 17 मई, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-बख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को, 17 नवम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[का० सं० 4(1)/77-सी. यू. एस.]

S.O. 387(E)/18-EB/DRR/84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 354 (E), dated the 25th May, 1978 (hereinafter referred to as the said Order) the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 25th May, 1978 to which the industrial undertaking known as

the Bengal Immunity Company Limited, Calcutta or the company owing such undertaking is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended upto the 18th May, 1979 and that all rights, privileges, obligations, and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 166 (E), dated 29th March, 1979 S.O. 325 (E), dated 17th May, 1980, S.O. 371 (E), dated 16th May, 1981, S.O. 328 (E), dated 17th May, 1982, S.O. 813 (E), dated 17th November, 1982, S.O. 361 (E), dated 17th May, 1983 and S.O. 819 (E), dated 17th November, 1983, the duration of the said Order was extended from time to time for a further period upto and inclusive of the 17th May, 1984;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 17th November, 1984.

[F. No. 4 (1)/77-CUS]

का० आ० 388(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 325 (अ) तारीख 18 मई, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“4. बिग कर्माइडर, डी. पी. कपूर, सेवा निवृत्तक, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली।”

पाद टिप्पण :

मूल आदेश का० आ० 325(अ), तारीख 18 मई, 1978 का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(1) का० आ० 69(अ), तारीख 5-2-79 (2) का० आ० 151 (अ), तारीख 21-3-79 (3) का० आ० 524 (अ) तारीख 11-9-79 (4) का० आ० 233(अ) तारीख 31-3-1980 (5) का० आ० 387 (अ) तारीख 5-6-1980 (6) का० आ० 777 (अ) तारीख 12-9-80 (7) का० आ० 941 (अ) तारीख 5-12-80 (8) का० आ० 520 (अ) तारीख 29-6-1981 (9) का० आ० 792(अ) तारीख 9-11-81 (10) का० आ० 24(अ) तारीख 16-1-1982 (11) का० आ० 679 (अ) तारीख 30-9-1982 (12) का० आ० 142 (अ) तारीख 24-2-1983 (13) का० आ० 801(अ) तारीख 20 अगस्त, 1983 (14) का० आ० 779(अ) तारीख 29 अक्तूबर, 1983 (15) का० आ० 135(अ) तारीख 28 फरवरी, 1984.

[का० सं० 4 (1)/77-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरबन, संयुक्त सचिव

S.O. 388 (E).—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 325 (E), dated the 18th May, 1979 namely :—

In the said Order, for serial No. 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:

"4. Wing Commander D.P. Kapoor, Controller of Accounts, Ministry of Chemicals and Fertilizers, New Delhi."

FOOT NOTE:

The principal order S.O. 325 (E) dated 18th May, 1978 has been amended vide (i) S.O. 69 (E) dated 5-2-1979, (ii) S.O. 151 (E) dated 21-3-1979, (iii) S.O. 524 (E) dated

11-9-1979 (iv) S.O. 233 (E) dated 31-3-1980 (v) S.O. 387 (E) dated 5-6-1980 (vi) S.O. 777 (E) dated 12-9-1980 (vii) S.O. 941 (E) dated 5-12-1980 (viii) S.O. 520 (E) dated 26-9-1981 (ix) S.O. 792 (E) dated 9-11-1981 (x) S.O. 24 (E) dated 16-1-1982 (xi) S.O. 679 (E) dated 30-9-1982 (xii) S.O. 142 (E) dated 24-2-1983 (xiii) S.O. 601 (E) dated 20th August, 1983 (xiv) S.O. 779 (E) dated 29th October, 1983 (xv) S.O. 135 (E) dated 28th February, 1984.

[F. No. 4(1)/77-CUS]

A. P. SARWAN, Joint Secy.

